

विधान सभा सचिवालय  
मध्य प्रदेश  
समाचार

गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव पर विधानसभा अध्यक्ष ने की लंगर सेवा

मदनमहल, जबलपुर गुरुद्वारा में प्रकाशोत्सव में हुए शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष

भोपाल/जबलपुर, 01 जनवरी, 2023

विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने आज गुरुद्वारा मदनमहल में गुरुगोविंद सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित प्रकाश उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान श्री गौतम ने गुरुग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेका और लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना की। संयोग से अंग्रेजी नववर्ष का पहला दिन होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने गुरुद्वारे में लंगरसेवा की, इस दौरान उन्होंने बर्तन मांझे और उसके बाद प्रसाद भी ग्रहण किया।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि गुरुगोविंद सिंह को अवतार के रूप में देखें तो अनुचित नहीं होगा, क्योंकि भारत राष्ट्र में जब शक्ति व धर्म की बात आती है तो उनके एक बात याद आती है कि सवा लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते बाज तुड़ाऊं, तबै गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। यह बात एक शब्द नहीं बल्कि एक शक्तिपुंज है आग है, जो बेबस लोगों पर होने वाले जुर्म के खिलाफ का भाग है। उनके जीवन मूल्य कुर्बानियों का है इस बात से आत्मविश्वास पैदा होती है और इसी आत्मविश्वास से चिड़िया बाज से लड़ जाती है, गीदड़ शेर से लड़ जाती है। उन्होंने कहा कि साढ़े तीन सौ साल पहले तथा आज भी उनकी बातों की प्रासंगिकता है। भारत को शिखर पर ले जाना है तो पिछले उन बातों को याद करने की आवश्यकता है जो हमें प्रेरणा प्रदान किये हैं।

इस मौके पर गुरुद्वारा कमेटी द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम व मंत्री श्री हरेन्द्रजीत सिंह बब्बू का सिरोपा भेंटकर सम्मान किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री हरेन्द्रजीत सिंह बब्बू सहित अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति व जनसमूह उपस्थित थे।

विस/ जसं /23

नरेंद्र मिश्रा  
अवर सचिव